



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अगस्त 19—अगस्त 25, 2007, शनिवार/श्रावण 28—भाद्र 3, 1929
No. 14] NEW DELHI, AUGUST 19—AUGUST 25, 2007, SATURDAY/SRAVANA 28—BHADRA 3, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2007

का. नि. आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अनुभाग अधिकारी और सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) भर्ती नियम, 2004 के प्रतिस्थापन में, जहां तक ये सहायक के पदों (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) से संबंधित हैं, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व किए गए कोई परिवर्तन अथवा किए जाने वाले विलोपन को छोड़कर रक्षा मंत्रालय (वित्त) में अनुभाग अधिकारी और सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय (वित्त) सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य) समूह 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2007 होगा ।

(2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे ।

2. अनुप्रयोग.—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण व वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान उक्त अनुसूची के कॉलम (2) और (4) में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगा ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (14) में विनिर्दिष्ट होंगी ।

5. अपात्रता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से पति/पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस निर्णय के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. नियमों में छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार का मत हो कि किसी व्यक्तियों के वर्ग अथवा श्रेणी के बारे में इन नियमों के परन्तुकों में किसी प्रकार की छूट देने की आवश्यकता है अथवा ऐसा करना अनिवार्य है तो सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और इसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके आदेश जारी कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के बढ़े हुए वर्षों का लाभ अनुमेय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाह्य)	26*(2007) (* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित गैर मंत्रालयी	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)	(8)		(9)		(10)
लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा, प्रोन्नति द्वारा या
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों
द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशतता

यदि भर्ती प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई है तो वे
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :—

- केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के 4000-100-6000
रुपए के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने 10 वर्ष
की नियमित सेवा पूरी कर ली है और जिन्होंने सचिवालय
प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा किसी अन्य प्रशिक्षण
संस्थान द्वारा संचालित समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा
किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का
अनुभव रखते हों।

(12)

(ii) रक्षा लेखा विभाग के 5500-175-9000 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ लेखापरीक्षक ।

(iii) रक्षा लेखा विभाग के 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में लेखापरीक्षक जिन्होंने इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पणी I : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पूर्ववर्ती अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी II : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका संघटन

भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं

इन नियमों के परंतुकों में संशोधन छूट के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/2/99-स्था.- II]

आर. एस. परोच, उम वित्तीय सलाहकार (स्था.)

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 9th August, 2007

S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence (Finance) Section Officer and Assistant (Excluded from the Central Secretariat Services) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Assistant (Excluded from Central Secretariat Services) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant (Excluded from the Central Secretariat Service), in the Ministry of Defence (Finance) namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence (Finance) Assistant (Excluded from the Central Secretariat Service) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and after consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect observations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant (Excluded from Central Secretariat Service)	26* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	Central Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Administrative	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)		(8)	(9)		(10)
Not applicable		Not applicable	Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion /deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
(11)			(12)		
Deputation:			Deputation :		
			(i) Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Services in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with ten years regular service in the grade and who have undergone training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course conducted by any other training institution and possesses three years experience in cash, accounts and budget work.		
			(ii) Senior Auditors of the Defence Accounts Department in the pay scale of Rs. 5500-175-9000.		
			(iii) Auditors of the Defence Accounts Department in the pay scale of Rs. 4500-125-7000 with six years regular service in the grade.		

(12)

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

[F.No. A-12018/2/99-Estt.-II]

R. S. PROACH, Dy. Financial Advisor (Estt.)

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिकी क्वालिटी आश्वासन महाविदेशालय)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2007

का. नि. आ. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा वैमानिकी क्वालिटी आश्वासन सेवा नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा वैमानिकी क्वालिटी आश्वासन सेवा संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा वैमानिकी क्वालिटी आश्वासन सेवा नियम, 2005 में :-

(i) अनुसूची 1 में क्रम सं. 5 के पद के सामने स्तम्भ 5 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ऐसा ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेणी 2 जिसने उस ग्रेणी में 8000-13500 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म या विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य हो।

टिप्पण :-इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेणी II के पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी ऊपर उपदर्शित अर्हताओं को रखने से छूट प्राप्त होंगे।”

(ii) अनुसूची 3 में “आवश्यक” उपशीर्ष के अधीन (i) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण :-विनिर्दिष्ट विधा जिसमें इंजीनियरी में डिग्री या वे विषय जिनमें विज्ञान में मास्टर डिग्री अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए, प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जाएंगी।”

[फा. सं. 2545/डीजीएक्यूए/प्रशा.-1/710-III/डी(एचएएल)]

वी. सेतुमाधवन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 में सं. का.नि.आ. 132 तारीख 6 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए।

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 2nd August, 2007

S.R.O. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Defence Aeronautical Quality Assurance Service Rules, namely 2005 :—

1. (1) These rules may be called the Defence Aeronautical Quality Assurance Service Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Aeronautical Quality Assurance Service Rules, 2005 :—

(i) in Schedule-I, against the post at Sl. No. 5, for the entries under column 5, the following entries shall be substituted namely :—

“Senior Scientific Officer Grade-II in the pay scale of Rs. 8000—13500 with five years regular service in the grade and possessing degree in Engineering or Technology or Metallurgy or Masters Degree in Science or equivalent qualifications.

Note :— The existing incumbents holding the post of Senior Scientific Officer grade-II on regular basis on the date of notification of these rules, shall be exempted from possessing the qualifications indicated above.”

(ii) in the Schedule-III, under the sub heading “Essential”, after (i), the following Note shall be inserted, namely :—

“**Note :—** The specific discipline in which Degree in Engineering or subjects in which Master's Degree in Science, to be possessed by the candidates shall be indicated at the time of each recruitment.”

[F. No.2545/DGAQA/Adm-I/710-III/D(HAL)]

V. SEITHUMADHAVAN, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide SRO No. 132, dated the 6th December, 2005.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2007

का. नि. आ. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1971 को, जहाँ तक उनका संबंध (1) भंडारी श्रेणी 1, (2) भंडारी श्रेणी 2, (3) अनुदेशक फोरमैन, (4) सिविलियन व्यवसाय अनुदेशक (5) नौकानिर्माता या पोतकार, (6) पुस्तकालयाध्यक्ष, (7) सिनेमा प्रेक्षक श्रेणी 3, (8) टाइप राइटर मैकेनिक (9) पोस्टर चित्रकार के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, तीन इंजीनियर समूहों और केन्द्रों में समूह ‘ग’ (औद्योगिक और अनौद्योगिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :.

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना समूह ‘ग’ (औद्योगिक और अनौद्योगिक) असैनिक इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम तीन इंजीनियर समूहों और केन्द्रों, अर्थात् : (i) मद्रास इंजीनियर समूह और केन्द्र, बंगलौर (ii) बंगाल इंजीनियर समूह और केन्द्र, रुड़की (iii) बम्बई इंजीनियर समूह और केन्द्र किड़की, में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे परन्तु प्रत्येक काडर की ज्येष्ठता और प्रोन्नति का रखरखाव पृथक् रूप से किया जाएगा।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भंडारी श्रेणी-2	27* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसूचित अराजपत्रित	4000-100- 6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(11)		(12)			
प्रोन्नति द्वारा		ऐसे भंडारी श्रेणी III में से प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है।			
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
(13)		(14)			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :		लागू नहीं होता।			
(i) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशिती		—अध्यक्ष			
(ii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी		—सदस्य			
(iii) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी		—सदस्य			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडारी श्रेणी-3	54* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुसूचितवर्गीय अराजपत्रित।	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	आवश्यक : उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण या इसके समतुल्य। वांछनीय : (i) उसी प्रकार के कार्य में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। (ii) एम. एस. वर्ड में कम्प्यूटर का ज्ञान। (iii) भंडारण/भंडार प्रबंध में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा मंत्रालय की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत हैं।

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : (i) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशित (ii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी (iii) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी	लागू नहीं होता। —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अनुदेशक फोरमैन	45* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसूचित अराजपत्रित	4000-100-6000 रु.	अवयन	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं लागू होता	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बेचलर डिग्री जिसमें साथ ही राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एन. सी. सी.)/राष्ट्रीय व्यवसाय और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, और तीन वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, तीन वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव हो।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे व्यवसाय अनुदेशकों में से शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इस श्रेणी में न्यूनतम 8 वर्ष नियमित सेवा की है और सुसंगत व्यवसाय में विहित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया है।

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता ।
(1) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशिनी	—अध्यक्ष
(2) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी	—सदस्य
(3) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पक्ति या समतुल्य पक्ति का अधिकारी	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सिविल व्यवसाय अनुदेशक	150* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसूचित, अराजपत्रित	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य जिसके साथ संबद्ध व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय व्यवसाय या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र । (2) भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का पर्याप्त कौशल तथा जानकारी रखता है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलेन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलेन द्वारा : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत हैं

(13)

(14)

पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता ।

- | | |
|--|---------|
| (1) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशित | —अवश्यक |
| (2) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी | —सदस्य |
| (3) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कौन्टन की पक्ति
या समतुल्य पक्ति का अधिकारी | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. बढई	6* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुसूचित, अराजपत्रित	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) बढई के सभी कार्यों से सुभिन्न होना चाहिए ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)

(12)

आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

आमेलन द्वारा : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर
विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत हैं

(13)

(14)

पुष्टि के संबंध में समूह 'अ' विभागीय स्तर पर समिति
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता ।

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशित -- अध्यक्ष
(2) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी -- सदस्य
(3) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से मैट्रन को प्राप्त या समतुल्य पौका का अधिकारी -- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. पुस्तकालयाध्यक्ष सूचना सहायक	3* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	प्राथम्य केन्द्रीय पौका, समूह 'अ' अनन्यकारीय, प्रमाणित	50,00-175- 90,000 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आवश्यक : (क) कला/विज्ञान/वाणिज्य में डिग्री (ख) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक वांछनीय :--कार्यालय स्वचालित यंत्र का ज्ञान तथा कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	आमेलन द्वारा : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत हैं

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता ।
(i) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशिती	- अध्यक्ष
(ii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी	- सदस्य
(iii) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सिनेमा प्रेक्षक श्रेणी-2	3* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) व्यवसाय में डिप्लोमा प्रमाणपत्र	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन द्वारा : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत हैं।

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
(i) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशिनी	—अध्यक्ष
(ii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी	—सदस्य
(iii) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. टाइप राइटर मैकेनिक	3* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आवश्यक : (i) मिडिल स्तर उत्तीर्ण (ii) टाइप राइटर मैकेनिक के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव (iii) सभी प्रकार की टाइप राइटर	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(8)

मशीनों के तंत्र से अभिज्ञ होना
चाहिए तथा मरम्मत करने या
टाइपराइटर की यांत्रिक घुटियों को
सुधारने में समर्थ होना चाहिए।

(11)

आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

आमेलन द्वारा :

ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप,
समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत हैं।

(13)

पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|----------|
| (i) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशिती | -अध्यक्ष |
| (ii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी | -सदस्य |
| (iii) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पंक्ति
या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी | -सदस्य |

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. विज्ञापन कलाकार	3* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	4000-100- 6000 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले

(6)

के पांगी उपखण्ड, अंदमान
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
के अभ्यर्थियों के लिए विहित
की गई हैं)।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं से सदृश समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में आमेलन द्वारा

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्देशिनी —अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी —सदस्य (3) किसी अन्य विभाग/कार्यालय से कैप्टन की पंक्ति या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पी.सी. 39560/सिविलियन/ग्रुप सी/ईवनए/525/आर.आर./रक्षा (नि.)/07]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2007

S.R.O. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Civilian in Defence Services (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971 in so far as they relate to the posts of :—

- Storekeeper Grade-I,
- Storekeeper Grade-II,
- Instructor Foreman,
- Civilian Trade Instructor,
- Boat Builder or Ship Wright,
- Librarian,
- Cinema Projectionist Grade-II,
- Typewriter Mechanic,
- Poster Artist,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Group 'C' (Industrial and Non-Industrial) in the three Engineer Groups and Centres, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Army Group 'C' (Industrial and Non-Industrial) Non-Military Engineering Service Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified on column (1) of the Schedule annexed to these rules in the three Engineer Groups and Centres namely :—

(i) Madras Engineer Group and Centre, Bangalore (ii) Bengal Engineer Group and Centre, Roorkee (iii) Bombay Engineer Group and Centre, Kirkee, but the maintenance of seniority and promotion of each cadre shall be done separately.

3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Storekeeper Grade-II	27* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 4000-100-6000	Non selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)		(8)		(9)	(10)
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable

3476 GI/07-3

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption to the grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)	(12)
By promotion	By promotion of Store Keeper Grade-III with 8 years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— (i) Appointing Authority or his nominee —Chairman (ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member (iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank —Member from another Deptt./Office	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store keeper Grade-III	54* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Govt. Servant up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Govt. from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
No	Essential : Higher Secondary pass or its equivalent Desirable : (i) Minimum one year experience in similar work. (ii) Knowledge of computers in MS Word (iii) Certificate course in Store keeping/Store Management	Not applicable	Two years for direct recruits

(11)	(12)
By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of the Ministry of Defence.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :— (i) Appointing Authority or his nominee —Chairman (ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member (iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank —Member from another Department/Office	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
3. Instructor Foreman	45* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Rs. 4000-100-6000	Non-selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those, in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Essential : (i) Matriculation or equivalent. (ii) Diploma in Engineering or Technology in the relevant field from recognised Board or Institute or Bachelor Degree in any stream from a recognised University with National Trade Certificate (NTC)/(National Certificate of Trade and Vocational Training) with 3 years post graduation experiences.	Between 18 and 25 years for direct recruits.	Two years for direct recruits.

(11)	(12)
100% by promotion failing which by direct recruitment.	100% by promotion from Trade Instructors who have rendered minimum 8 years' regular service in the grade and have passed the prescribed trade test in the relevant trade.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—	Not applicable.
(i) Appointing Authority or his nominee —Chairman	
(ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member	
(iii) An Officer in the rank of Captain or equivalent rank from another Deptt./Office —Member	

1	2	3	4	5	6
4. Civil Trade Instructor	150* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Rs. 3050-5-3950-80-4590.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Essential : (i) Matriculation or equivalent with Industrial Training Institute/ National Certificate of Trade and Vocational Training in the concerned trade. (ii) Should be of adequate skill and knowledge of imparting training to recruits.	Not applicable	Two years for direct recruits.

(11)	(12)
By absorption failing which by direct recruitment.	By Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher grade in the lower formations of Defence services.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable.
(i) Appointing Authority or his nominee —Chairman	
(ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member	
(iii) An Officer in the rank of Captain or equivalent rank from another Deptt./Office. —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Carpenter years.	6*	General Central Services Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Ra. 3050-75-3950-80-4590.	Not applicable	Between 18 and 25 (Relaxable for Government Servants up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub-division of Chamha District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Essential : (i) Matriculation or equivalent; (ii) Should be well versed with all Carpenter tasks.	Not applicable	Two years for direct recruits.

(11)	(12)
By absorption failing which by direct recruitment	By Absorption: Similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—	Not applicable.
(i) Appointing Authority or his nominee — Chairman	
(ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer — Member	
(iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank from another Deptt./Office — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Librarian Information Assistant	3* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial, Non-Graded	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servant up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Essential : (a) Degree in Arts/Science/Commerce; (b) Bachelor of Library Science. Desirable: Knowledge of Office Automation and working knowledge of Computer	Not applicable	Two years for direct recruits

(11)	(12)				
By direct recruitment failing which by deputation/absorption	By Absorption : Persons serving in similar, equivalent or higher grade in lower formations of the Ministry of Defence.				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :— (i) Appointing Authority or his nominee —Chairman (ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member (iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank from another Deptt./Office. —Member	Not applicable.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Cinema Projectionist Grade-II	3* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Between .18 .and 25 years. (Relaxable for Government Servant .up to. 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Essential : (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board; (ii) Diploma certificate in the Trade	Not applicable	Two years for direct recruits		
(11)	(12)				
By absorption failing which by direct recruitment.	By Absorption : Similar, equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services.				

(13)					(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—					Not applicable.
(i) Appointing Authority or his nominee —Chairman					
(ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member					
(iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank —Member from another Deptt./Office					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Typewriter Mechanic	3* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 3050-75- 3950-80-4590	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servant up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).
(7)	(8)		(9)	(10)	
Not applicable	Essential : (i) Middle Standard Pass (ii) Should have minimum one year experience in the field Typewriter Mechanic; (iii) Should be conversant with Mechanism of all types of typewriter machines and be able to rectify Mechanical defects of typewriter machines by repairs or otherwise.		Not applicable	Two years for direct recruits	
(11)			(12)		
By absorption failing which by direct recruitment			By Absorption : Similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services.		
(13)					(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—					Not applicable.
(i) Appointing Authority or his nominee —Chairman					
(ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member					
(iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank —Member from another Deptt./Office					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Poster Artist	3* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services (Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted)	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servant up to 35 years as per orders/instructions issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Essential : (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board; (ii) Diploma in Commercial Art from a Government recognized institution.	Not applicable	Two years for direct recruits

(11)	(12)
By absorption failing which by direct recruitment	By Absorption : Similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :— (i) Appointing Authority or his nominee —Chairman (ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member (iii) An Officer in the rank of Capt. or equivalent rank from another Deptt./Office. —Member	Not applicable.

[F. No. PC-39560/Civ./Gp-C/E 1A/525/RR/D(A)/07]

V.A. CHAVDA, Under Secy.